



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 54] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 17, 1982/माघ 28, 1903

No. 54] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 17, 1982/MAGHA 28, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

विश्व मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1982

अधिसूचना

सं. 19/82-सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 70(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अभिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 75 और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क वापसी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- (1) इस नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क वापसी (प्रथम संशोधन) नियम, 1982 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क वापसी नियम, 1971 के नियम 3 के उप-नियम (1) के द्वितीय परन्तुक में खण्ड (1) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(1) यदि उक्त माल का, चाय की उन पैटियों के सिवाय जिनका सम्मिश्रित चाय के निर्यात के लिए पैकिंग सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है, विनिर्माण के पश्चात् उपयोग किया गया है, या”

[फा. सं. 602/19/81-डी. बी. के.]

जी. आर. शर्मा, उप-सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 1982

#### NO. 19/82-CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE

**G.S.R. 70(E).**—In exercise of the powers conferred by section 75 of the Customs Act, 1962 (52 of 1952) and section 37 of the Central Excise and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971, namely :—

1. (1) These rules may be called the Customs and Central Excise Duties Drawback (First Amendment) Rules, 1982.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 3 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971, in sub-rule (1), in the second proviso, for clause (i), the following clause shall be substituted, namely :—

“(i) if the said goods, except tea chest used as packing materials for export of blended tea, have been taken into use after manufacture ; or”

[F. No. 602/19/81-Dbk]

G. R. SHARMA, Dy. Secy.